



स्थानीय मान अर्थात् क्या ?



तीस पाँच / पैंतीस

३५ इस संख्या में ३ दहाई के स्थान पर है ।
३ दहाई गट्टे छुट्टे किया तो ३० इकाई प्राप्त होता है । अर्थात् ३५ इस संख्या में ३ का स्थानीय मान ३० है । ५ इकाई के स्थान पर है । इसलिए ५ का स्थानीय मान ५ ही है ।




पचास

संख्या ५० में ५ दहाई के स्थान पर है ।
५ दहाई गट्टे छुट्टे किया तो ५० इकाई प्राप्त होता है । अर्थात् संख्या ५० में ५ का स्थानीय मान ५० है । इकाई के स्थान पर ० है, शून्य का स्थानीय मान ० है ।

निम्नलिखित संख्या देखकर प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पहचनों ।





६



२०

६



प्रत्येक अधोरेखित अंक का स्थानीय मान पहचानो ।

<u>१</u> ८	१ का स्थानीय मान १०	कारण १ दहाई के घर में है ।
२ <u>३</u>	३ का स्थानीय मान ३	कारण ३ इकाई के घर में है ।
६ <u>५</u>	५ का स्थानीय मान ५	कारण ५ इकाई के घर में है ।
<u>७</u> २	७ का स्थानीय मान ७०	कारण ७ दहाई के घर में है ।
<u>५</u> ०	० का स्थानीय मान <input type="text"/>
<u>४</u> ०	४ का स्थानीय मान <input type="text"/>
<u>८</u> ८	८ का स्थानीय मान <input type="text"/>
८ <u>८</u>	८ का स्थानीय मान <input type="text"/>
<u>६</u> १	६ का स्थानीय मान <input type="text"/>

अब नीचे दी गयी संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो,

